



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2017/ पौष 14, 1938

No. 16]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2017/PAUSA 14, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

भारतीय मानक ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर 2016

का.आ. 17(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक (कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	स्थापित तिथि	भारतीय मानक(कों) जो कि रद्द होने है, अगर है, की संख्या वर्ष और शीर्षक	रद्द होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आई एस 13730 (भाग 20) : 2016/आई ई सी 60317-20 : 2000 विशेष प्रकार की कुंडलन तारों की विशिष्टि भाग 20 सोल्डरेबल पोलीयूरेथन इनैमलित गोलाकार तांबा तारें, वर्ग 155 (पहला पुनरीक्षण)	28 दिसम्बर 2016	आई एस 13730 (भाग 20) : 1993 विशेष प्रकार की कुंडलन तारों की विशिष्टि भाग 20 टंका लगाने योग्य पोलीयूरेथन इनैमलित गोल तांबे के तार वर्ग 155	28 दिसम्बर 2016
2.	आई एस 16227 (भाग 1) : 2016/आई ई सी 61869-1 : 2007	28 दिसम्बर 2016	लागू नहीं	लागू नहीं

	उपस्कर ट्रांसफार्मर भाग 1 सामान्य अपेक्षाएँ			
3.	आई एस/आई ई सी 60071-4 : 2004 इन्सुलेशन कार्डिनेशन भाग 4 इन्सुलेशन कार्डिनेशन तथा इलेक्ट्रीक नेटवर्कों की मोडलिंग की कॉम्प्यूटेशनल गाईड	28 दिसम्बर 2016	लागू नहीं	लागू नहीं

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयंबतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

[संदर्भ: PUB/3/3/15]

टी. बी. नारायणन, वैज्ञानिक – 'एफ' एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण)

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLICATION DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

### BUREAU OF INDIAN STANDARDS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December 2016

**S.O. 17(E).**— In pursuance of clause(b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the second coloumn of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third coloumn. The particulars of the standards, if any, which are given in the fourth coloumn shall also remain in force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth coloumn

#### SCHEDULE.

Sl. No.	No & Year of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. & Year of the Indian Standards to be cancelled if any	Date of cancellation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 13730 ( Part 20) : 2013/IEC 60317-20 : 2000 Specification for Particular Types of Winding Wires Part 20 Solderable Polyurethane Enamelled Round Copper Wire, Class 155 ( First Revision)	28 December 2016	IS 13730 ( Part 20) : 1993 Specification for Particular Types of Winding Wires Part 20 Solderable Polyurethane Enamelled Round Copper, Class 155	28 December 2016

2	IS 16227 ( Part 1) : 2016/IEC 61869-1 : 2007 Instrument Transformers Part 1: General Requirements	28 December 2016	NA	NA
3	IS/IEC 60071-4 : 2004 Insulation Coordination Part 4 Computational Guide to Insulation Co-ordination and Modelling of Electrical Networks	28 December 2016	NA	NA

Copies of these standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110002 and Regional Offices : Kolkatta, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Kochi. Online purchase of Indian Standards can be made at <http://www.standardbis.in>.

[Ref: PUB/3/3/2015]

T. B. NARAYANAN, Sc. F & DDG (Standardization)